

SarkariExam.Com

अपडेट सबसे पहले

अब घंटो पढ़ने की जरूरत नहीं, मात्र कुछ मिनटों में ही लीजिये Current Affairs की जानकारी – और रहिए अपडेट ॥ अब से हर रोज RRB Railway ASM/ NTPC – 2, RPF Exam के लिए के Current Affairs के महत्वपूर्ण प्रश्नों की अपडेट हम आपको देंगे, जो करेंगे मदद आपके सभी Exams में और आपका सरकारी नौकरी पाने का सपना होगा सच ॥

Special 20 Questions for Current Affairs

14/03/2020

Q1. मोदी कैबिनेट ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कितने प्रतिशत बढ़ा दिया है?

क. 2 प्रतिशत

ख. 4 प्रतिशत

ग. 6 प्रतिशत

घ. 8 प्रतिशत

मोदी कैबिनेट ने हाल ही में केंद्रीय कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता 4 प्रतिशत बढ़ा दिया है. साथ ही यस बैंक के रीस्ट्रक्चरिंग को मंजूरी दे दी है. भारतीय स्टेट बैंक, यस बैंक की 49 प्रतिशत इक्विटी में निवेश करेगा.

Q2. सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक रह चुके एस. एस. देसवाल को हाल ही में ___ के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है

क. सीएसएफ

ख. बीएसएफ

ग. एमएसएफ

घ. जीएसएफ

सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक रह चुके एस. एस. देसवाल को हाल ही में सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है. वे 1984 बैच के हरियाणा कैडर के आईपीएस अफसर हैं.

Q3. हाल ही में किस बैंक ने सभी बचत खाताधारकों के लिए एक औसत मासिक न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य समाप्त कर दिया है?

क. बैंक ऑफ़ बड़ोदा

ख. यस बैंक

ग. पंजाब नेशनल बैंक

घ. भारतीय स्टेट बैंक

भारतीय स्टेट बैंक ने हाल ही में सभी बचत खाताधारकों के लिए एक औसत मासिक न्यूनतम राशि रखना अनिवार्य समाप्त कर दिया है. अब से बचत खाताधारकों को "जीरो बैलेंस" खाते की सुविधा मिलेगी.

Q4. निम्न में से किसने हाल ही में खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी है?

क. निति आयोग

ख. सुप्रीमकोर्ट

ग. हाईकोर्ट

घ. संसद

संसद ने हाल ही में खनिज कानून (संशोधन) विधेयक, 2020 को मंजूरी दे दी है. हाल ही में लोकसभा के बाद राज्यसभा में यह विधेयक को पारित कर दिया गया है. इस खनिज कानून (संशोधन) विधेयक से प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के साथ अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी.

Q5. दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वालों में अरबपतियों में मुकेश अम्बानी कौन से स्थान पर रहे हैं?

क. पहले

ख. दूसरे

ग. पांचवे

घ. आठवे

दुनिया में सबसे ज्यादा नुकसान झेलने वालों में अरबपतियों में मुकेश अम्बानी 5वें स्थान पर रहे हैं. पहले स्थान पर अरबपति बर्नार्ड अरनॉल्ट रहे, जिनकी नेटवर्थ 2.72 लाख करोड़ रुपए घटी है.

Q6. सौराष्ट्र ने बंगाल को फाइनल में हराकर कौन सी बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है?

क. पहली

ख. दूसरी

ग. तीसरी

घ. चौथी

सौराष्ट्र ने बंगाल को फाइनल में हराकर पहली बार रणजी ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है. सौराष्ट्र ने पहली पारी में 425 रन बनाए थे और बंगाल ने पहली पारी में सिर्फ 381 रन बनाये.

Q7. 2020 के लिए खेल की सबसे प्रभावशाली टॉप-10 महिलाओं की सूची में किस भारतीय महिला को स्थान मिला है?

क. पीवी सिन्धु

ख. नीता अंबानी

ग. साइना नेहवाल

घ. मिताली राज

2020 के लिए खेल की सबसे प्रभावशाली टॉप-10 महिलाओं की सूची में रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी को स्थान मिला है. वे मुंबई इंडियंस क्रिकेट टीम की मालकिन है.

Q8. पंकज आडवाणी ने हाल ही में ईशप्रीत सिंह को हराकर कौन सा वां राष्ट्रीय स्नूकर खिताब जीत लिया है?

क. 12वां

ख. 22वां

ग. 34वां

घ. 42वां

पंकज आडवाणी ने हाल ही में ईशप्रीत सिंह को हराकर 34वां राष्ट्रीय स्नूकर खिताब जीत लिया है. उन्होंने राष्ट्रीय 6-रेड स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है.

Q9. हाल ही में किस देश में लगभग 990 लाख साल पुराना दुनिया के सबसे छोटे डायनासौर का अवशेष खोजा गया है?

क. ईरान

ख. इराक

ग. म्यांमार

घ. जापान

हाल ही में म्यांमार में लगभग 990 लाख साल पुराना दुनिया के सबसे छोटे डायनासौर का अवशेष खोजा गया है. जो के पारदर्शी पत्थर में सुरक्षित मिला है. इस डायनासौर की मौत पेड़ के छिद्र में सिर अटकने से हुई थी.

Q10. भारत सरकार ने सोनौली बार्डर से किस देश जाने वाले नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है?

क. अमेरिका

ख. ऑस्ट्रेलिया

ग. चीन

घ. नेपाल

भारत सरकार ने सोनौली बार्डर से नेपाल जाने वाले श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, फ्रांस, स्पेन, आस्ट्रेलिया, नीदरलैंड व रूस के 202 नागरिकों का वीजा रद्द कर दिया है. साथ ही इन सभी देशों की नागरिकों को शीघ्र भारत वापस लौटने को कहा गया है.

Q11. थ्री सेकण्डस् किस खेल से सम्बन्धित हैं ?

क. बिलियर्ड्स

ख. बास्केटबॉल

ग. पोलो

घ. मुक्केबाजी

Q12. ईरानी कप का सम्बन्ध निम्नलिखित में से किस खेल से है ?

क. फुटबॉल हॉकी

ख. मुक्केबाजी

ग. क्रिकेट

घ. पोलो

Q13. अपर कट इनमे से किस खेल से सम्बन्धित हैं ?

क. बॉक्सिंग

ख. बास्केटबॉल

ग. लॉन टेनिस

घ. गोल्फ

Q14. निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है ?

क. बलवीर सिंह

ख. जी एस. रामचन्द्र

ग. पृथ्वीपाल सिंह

घ. अशोक कुमार

Q15. खो-खो में कितनी क्रॉस लेन्स होती है ?

क. 9

ख. 8

ग. 16

घ. 2

Q16. अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से हुआ है?

क. 1981

ख. 1890

ग. 1961

घ. 1995

Q17. किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से सम्मान प्रदान किया गया है ?

क. योगेश्वर दत्त

ख. विजय कुमार

ग. जॉर्ज बुश

घ. किम ह्यूज

Q18. कबड्डी खेल की शुरुआत किस देश से हुई?

क. यूनानी

ख. रूस

ग. भारत

घ. जापान

Q19. अन्तर्राष्ट्रीय ओलम्पिक समिति के अध्यक्ष कौन हैं?

क. योगेश्वर दत्त

ख. जैक्स रोगे

ग. विजय कुमार

घ. ज्याफ हावर्थ

Q20. लंदन में 2012 में आयोजित 30 वें ओलम्पिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल किस देश ने जीते हैं?

क. अमेरिका

ख. जापान

ग. रूस

घ. चीन